



Bal Bharati
PUBLIC SCHOOL
Sector-21, Noida, G.B. Nagar

ऑनलाइन आभासीय गणतंत्र दिवस समारोह 2021 -22

उठो धरा के अमर सपनों ! पुनः नया निर्माण करो ।
जन-जन के जीवन में फिर से, नव स्फूर्ति नव प्राण भरो ॥

इसी भाव से ओत-प्रोत होकर 26 जनवरी 2022 को विद्यालय के प्रांगण में 73वां गणतंत्र-दिवस समारोह जूम लिंक के माध्यम से अनूठे तरीके से बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया । मातृभूमि को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती आशा प्रभाकर जी ने कार्यक्रम का आरंभ किया । देशभक्ति के गीतों से गुंजायमान विद्यालय परिसर में प्रधानाचार्या महोदया ने ध्वजारोहण किया । राष्ट्रीय-गान के पश्चात अभिभावकों तथा विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अपने उत्साहवर्धक भाषण में प्रधानाचार्या महोदया ने भारत को एक उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में माना । भारत सरकार की पहल 'आजादी का अमृत महोत्सव' का उल्लेख करते हुए विश्वास प्रकट किया कि देश के लोगों के प्रति यह समर्पण न केवल भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि अपने भीतर प्रत्येक भारतीय के सपनों को आगे बढ़ाने की शक्ति और क्षमता भी धारण करेगा। भारत के लिए महोदया का सपना एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां हर वर्ग के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।



तत्पश्चात् महोदया ने 'INDIGENOUS ART FORMS' (स्वदेशी कला रूप) नामक ई-कैलेंडर का विमोचन किया । नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना है जो और भी अधिक छात्र-केंद्रित हो । इसी उद्देश्य से



सकारात्मक रचनात्मकता पर ध्यान देने के साथ, विद्यालय के छात्रों ने अत्यंत आकर्षक व कलापूर्ण कैलेण्डर का निर्माण किया तथा मधुबनी, कलंकारी, पत्तचित्र आदि विविध स्वदेशी कलारूपों को खूबसूरती से चित्रित किया ।


इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए । योग के महत्त्व को स्वीकारते हुए **सूर्य-नमस्कार** के विविध आसनों को विद्यालय के प्राथमिक व माध्यमिक वर्ग के उत्साही छात्रों ने प्रस्तुत किया । स्फूर्ति व ऊर्जा से युक्त छात्रों की प्रस्तुति ने सभी को मोहित कर दिया ।



इसके पश्चात विद्यालय की छात्राओं ने भारत के विभिन्न राज्यों की परंपरागत नाट्यशैलियों को **'भारतीयता: विविधता में एकता'** शीर्षक पर आधारित शानदार नृत्य द्वारा प्रस्तुत किया ।



रक्षा-मंत्रालय व शिक्षा-मंत्रालय के सहयोग से **केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)** ने स्कूली छात्रों के बीच वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुर कृत्यों और बलिदानों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूलों में गतवर्ष अक्टूबर-नवंबर मास में **वीर गाथा (Veer Gatha) परियोजना** शुरू की थी । इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं व गतिविधियों को वीडियो द्वारा कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया तथा वीरता पुरस्कार विजेताओं के जीवन और बहादुर कृत्यों की जानकारी दी गई ।



उत्साही विद्यार्थियों ने जोश तथा देशप्रेम से ओतप्रोत देशभक्ति के गीतों की मधुर व भावपूर्ण प्रस्तुति द्वारा सभी को मोहित कर दिया । विद्यालय के छात्रों ने भारत की सांस्कृतिक एकता व सौहार्द को संगीतात्मक नृत्य द्वारा प्रस्तुत किया जिसने सबका मन मोह लिया ।



कार्यक्रम का अंत **MINDING THE GAP** नामक **सामूहिक चर्चा** से हुआ जिसका विषय था कि 16 दिसंबर, 2021 को नरेंद्र मोदी सरकार का महिलाओं के लिए शादी की उम्र को बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला क्या लड़कियों और युवा महिलाओं को सशक्त करेगा, शिक्षा तक उनकी पहुंच बढ़ाएगा और शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) और मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) दोनों को कम करेगा ? सामूहिक चर्चा में नवीं से बारहवीं कक्षाओं तक के विद्यार्थियों तथा अध्यापक-वर्ग ने अपने विचार व्यक्त किए ।



विद्यालय के अध्यापक-वर्ग के साथ ही छात्रों तथा अभिभावकों के बड़े वर्ग ने जूम एप तथा यू ट्यूब पर समारोह का आनंद लिया ।

प्रस्तुति :

डॉ० निशि निगम

27.01.2022